

अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्वास्थ्य कवर

अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्वास्थ्य कवर

यदि आप अस्थायी छात्र वीजा पर विदेश से आए छात्र/आई छात्रा हैं, तो अपने वीजा की पूरी अवधि के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा बनाए रखना आपके वीजा की एक शर्त है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्वास्थ्य कवर (ओएसएचसी) को पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा के रूप में माना जाता है।

यह कवर अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राओं को ऑस्ट्रेलिया में अपनी उपस्थिति के दौरान चिकित्सा और अस्पताल में देखभाल के शुल्क को पूरा करने में सहायता देता है। ओएसएचसी में एंबुलेंस कवर और सीमित रूप से दवाइयाँ भी शामिल होती हैं।

यदि आप यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्लोवीनिया, इटली या न्यू जीलैंड से छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए/आई हैं, तो आप अपने देश के पारस्परिक स्वास्थ्य देखभाल समझौतों (Reciprocal Health Care Agreements) के तहत मेडिकेयर के लिए आवेदन भी कर सकते/सकती हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, माल्टा और आयरलैंड गणराज्य के छात्र/छात्राओं को इन देशों के साथ किए गए समझौतों के तहत कवर प्राप्त नहीं होता है।

आपको पारस्परिक स्वास्थ्य देखभाल समझौते (Reciprocal Health Care Agreement) के तहत जो मेडिकेयर सुविधाएँ प्राप्त होंगी, वे ओएसएचसी के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त होंगी। पारस्परिकता के तहत मेडिकेयर सुलभ होने के बावजूद भी आप ओएसएचसी से विमुक्त नहीं होंगे/होंगी।

स्वीडन, नॉर्वे और बेल्जियम के छात्र/छात्राओं के लिए अपने-अपने देशों की राष्ट्रीय योजनाओं के तहत विशेष व्यवस्थाएँ हो सकती हैं - यह पता लगाने के लिए Department of Home Affairs के साथ जांच करें कि क्या आपके लिए विशेष व्यवस्थाएँ लागू होती हैं और क्या आप ओएसएचसी खरीदने की आवश्यकता से विमुक्त हैं।

ओएसएचसी के तहत क्या कवर किया जाता है?

ओएसएचसी नीतियाँ अस्पताल और चिकित्सीय उपचार के शुल्कों को कवर करने में सहायता देती हैं।

एंबुलेंस सेवाओं के लिए भी लाभों का भुगतान किया जाता है, लेकिन दवाइयों के लिए केवल सीमित लाभ ही लागू होते हैं, जोकि एकल सदस्यता के लिए अधिकतम \$50 प्रति उत्पाद से लेकर अधिकतम \$300 प्रतिवर्ष (पारिवारिक सदस्यता के लिए \$600) तक सीमित हैं। यदि आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर ऑन्कोलॉजी (कैंसर) के उपचार के लिए, तो आपको काफी अधिक आउट-ऑफ-पॉकेट शुल्क देना पड़ सकता है जिसमें हजारों डॉलर का खर्चा आ सकता है।

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले आगंतुक तत्काल उपयोग के लिए दवाइयाँ और चिकित्सीय

हमसे संपर्क करें

ombudsman.gov.au
1300 362 072

जीपीओ बॉक्स 442
कैनबरा एसीटी 2601

हमारे कार्यालय इन नगरों में स्थित हैं:

- » एडिलेड
- » ब्रिस्बेन
- » कैनबरा
- » मेलबर्न
- » पर्थ
- » सिडनी

उपकरण अपने साथ ला सकते हैं और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उन्हें छोटी मात्रा में आयात करने की अनुमति भी दी जा सकती है। और अधिक जानकारी के लिए [Therapeutic Goods Administration की वेबसाइट—Entering Australia and Personal Importation Scheme](#) पर जाएँ।

ओएसएचसी डेंटल, ऑप्टिकल या फिजियोथेरेपी जैसे सामान्य उपचारों (सहायक या अतिरिक्त कवर) के लिए भुगतान नहीं करता है। यदि आपको इन उपचारों के लिए कवर की आवश्यकता है, तो आप किसी ओएसएचसी प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला अतिरिक्त ओएसएचसी (Extras OSHC) खरीद सकते/सकती हैं या किसी भी ऑस्ट्रेलियाई निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ता से सामान्य उपचार कवर खरीद सकते/सकती हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बीमा (international travel insurance) जैसे किसी अन्य बीमा की सहायता से ओएसएचसी का अनुपूरण करने का चयन भी कर सकते/सकती हैं।

मैं ओएसएचसी कहाँ से खरीद सकता/सकती हूँ?

कुछ बीमाकर्ताओं द्वारा Department of Health के साथ एक समझौता विलेख (Deed of Agreement) के तहत छात्र/छात्राओं को समुचित मूल्य पर पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए ओएसएचसी उपलब्ध कराया जाता है। केवल कुछ ही पंजीकृत स्वास्थ्य बीमाकर्ता ओएसएचसी उपलब्ध कराते हैं:

स्वास्थ्य बीमाकर्ता	बीमाकर्ता की वेबसाइट
ahm OSHC	ahmoshc.com
BUPA Australia	overseasstudenthealth.com
Medibank Private	medibank.com.au
NIB OSHC	nib.com.au
Allianz Global Assistance (Lysaght Peoplecare)	allianzassistancehealth.com.au/en/student-visa-oshc/

चूँकि ओएसएचसी कवर होना वीज़ा की एक अनिवार्य शर्त है, इसलिए हर समय अपना कवर बनाए रखने के लिए ध्यान रखें। यदि आप भुगतान करने में चूक जाते/जाती हैं या अपने कवर को फिर से खरीदना भूल जाते/जाती हैं, तो आप अपने कवर को जारी तो रख पाएँगे/पाएँगी लेकिन जिस समय आपके पास कवर नहीं था, उस समय प्राप्त की गई सेवाओं के लिए आप दावा नहीं कर पाएँगे/पाएँगी।

यदि आपकी वीज़ा की स्थिति या मेडिकेयर पात्रता में किसी भी समय कोई परिवर्तन होता है, तो यह पता करने के लिए अपने बीमाकर्ता को जल्दी से जल्दी सूचित करें कि क्या आपके कवर का स्तर अभी भी उपयुक्त है या नहीं। आपके छात्र वीज़ा के समाप्त हो जाने पर आप ओएसएचसी के लिए पात्र नहीं रहेंगे/रहेंगी। तब आप निवासी कवर या विदेशी आगंतुक स्वास्थ्य कवर (Overseas Visitors Health Cover) योजना खरीद सकते/सकती हैं।

और अधिक जानकारी वेबसाइट ombudsman.gov.au पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें: इस प्रपत्र का उद्देश्य केवल एक निर्देशिका के रूप में मार्गदर्शन करना है। इसलिए व्यक्तिगत मामलों में इस जानकारी पर कानूनी सलाह के रूप में या कानूनी सलाह के एक विकल्प के रूप में निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल लोकपाल कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक इस प्रपत्र पर निर्भरता के परिणामस्वरूप आपको होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उद्धृत अधिनियमों के सबसे अद्यतित संस्करणों के लिए कृपया [Federal Register of Legislation](#) देखें।